

# इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी)

## पीयूए प्रमाणन समय सीमा



### चरण 1

#### लाभों के लिए आवेदन करें

- पीयूए के लिए आवेदन करने के लिए, आपका पहले नियमित बेरोज़गारी बीमा (यूआई) (Unemployment Insurance (UI)) के लिए अयोग्य होना आवश्यक है। और आपकी बेरोज़गारी का कारण महामारी से संबंधित होना आवश्यक है जिसकी संघीय क़ानून आज्ञा देता है।
- नियमित यूआई के लिए दाखिल करने के 7-10 दिनों के भीतर, आपको एक यूआई फाइंडिंग पत्र (UI Finding letter) मिलेगा। यदि यह पत्र इंगित करता है कि आप नियमित यूआई (UI) के लिए अयोग्य हैं, तो आप पीयूए (PUA) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- हमारे [ऑनलाइन पोर्टल](#) के माध्यम से पीयूए (PUA) के लिए आवेदन करें। कृपया अपनी ईमेल को प्रमाणित करने की योजना बनाएँ पता, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और अपना 2019 का टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय तैयार रखें।
- पीयूए (PUA) के लिए दावा करने के 10 कार्यकारी दिवसों के बाद आप एक पीयूए (PUA) फाइंडिंग प्राप्त करेंगे पत्र जो आपकी योग्यता को सिद्ध करता है और आपको प्रमाणन करने के लिए दिशा-निर्देश देता है।

टिप्पणी: एक बार नियमित लाभों के लिए आवेदन करने के बाद, यदि आपने डायरेक्ट डिपॉज़िट के लिए साइन अप नहीं किया है, तो आपको एक खाली कीबैंक (KeyBank) डेबिट कार्ड मिलेगा। आप अपना दावा जमा करने के तुरंत बाद या उसके बाद किसी भी समय डायरेक्ट डिपॉज़िट के लिए साइन अप कर सकते हैं।



### चरण 2

#### ऑनलाइन या फोन द्वारा प्रमाणीकरण करें

- प्रमाणीकरण वह तरीका है जिससे से आपको लाभों का भुगतान किया जाता है।
- आपके पीयूए खोज पत्र (PUA Finding letter) के माध्यम से योग्य घोषित किए जाने के बाद, ऑनलाइन जाएँ और अपनी पिछले सप्ताह की बेरोज़गारी के बारे में प्रमाणीकरण के प्रश्नों के उत्तर दें।
- आपको इस प्रक्रिया को हर सप्ताह दोहराना होगा। आपके लिए एक खास प्रमाणीकरण दिवस नियत नहीं किया जाएगा, और आप सप्ताह के किसी भी दिन को प्रमाणित कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे बढ़िया है।
- यह रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहें कि आपने काम किया था या नहीं, और पिछले सप्ताह के दौरान अर्जित सकल मज़दूरी की राशि क्या थी।

टिप्पणी: यदि आप Covid-19 के कारण बेरोज़गार या अवनियोजित हैं, तो आपको प्रत्येक सप्ताह महामारी से संबंधित कारण प्रदान करना होगा जिसे आप प्रमाणित करते हैं, अधिक जानकारी के लिए हमारे [ऑनलाइन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न \(FAQ\)](#) देखें।



### चरण 3

#### भुगतान प्राप्त करें

- लाभों के लिए प्रमाणित करने के 2-3 दिन बाद, आपके डेबिट कार्ड पर या डायरेक्ट डिपॉज़िट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- लाभों को प्राप्त करना जारी रखने के लिए आपको हर सप्ताह प्रमाणित करना जारी रखना होगा।

#### नमूना कैलेंडर

एक बार पीयूए के लिए आवेदन (**apply for PUA**) करने के बाद, आपको अपना पीयूए खोज पत्र (**PUA Finding letter**) पाने के लिए 10 कार्यकारी दिवसों तक इंतज़ार करना होगा। दस कार्यकारी दिवसों से शुरू करके, बाद में आप प्रमाणित (**certify**) कर सकते हैं। आप सप्ताह में एक बार (सप्ताह का कोई भी दिन) प्रमाणित करना जारी रखेंगे, और हर बार प्रमाणित करने के कुछ दिनों बाद अपना भुगतान (**payment**) पाएँगे।

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2 Apply for PUA	3	4	5	6
7	8	9	10	12	12	13
14	15	16 Get PUA Finding Letter	17 Certify	18	19 Payment	20
21	22	23	24 Certify	25	26 Payment	27
28	29	30	31 Certify		2 Payment	

टिप्पणी: आप सप्ताह के आखिरी दिनों और छुट्टियों में भी प्रमाणित कर सकते हैं (अगर छुट्टी के दिन प्रमाणित कर रहे हैं तो लाभों को प्राप्त करने में एक या अधिक दिनों की देरी हो सकती है)।

दावा दाखिल करना

प्रमाणीकरण करना

**IDES**  
ILLINOIS DEPARTMENT OF  
EMPLOYMENT SECURITY

ग्राहक सेवा  
800-244-5631